

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद सोनभद्र

दिनांक 23.11.2021

थाना करमा पुलिस द्वारा 01 पिकअप वाहन से 07 राशि गोवंश बरामद कर 01 नफर अभियुक्त को अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार ~

पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में गोवंश तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.11.2021 को प्रातः 6:00 बजे थाना करमा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर राबर्ट्सगंज-मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर भरूवा माइनर तिराहे के पास से 01 पिकअप वाहन से वध हेतु ले जाये जा रहे 07 राशि गोवंश बरामद कर 01 नफर अभियुक्त संजय कुमार पुत्र रामकुंवर निवासी ग्राम खुदरा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तलाशी से उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा .303 बोर व मय 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-137/21, धारा- 3,5A,5B,8 गोवध निवारण अधिनियम ,11 पशु क्रूरता अधिनियम तथा मु०अ०सं०-138 / 21 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

1- अभियुक्त संजय कुमार पुत्र राम कुंवर निवासी ग्राम खरदा थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद पिकअप से 07 राशि गोवंश

2- एक अदद तमंचा .303 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ०नि० प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष करमा सोनभद्र।

2- व०उ०नि० विनोद कुमार यादव थाना करमा सोनभद्र।

3- हे०कां० सुनील कुमार सिंह, थाना करमा सोनभद्र।

4- कां० मृत्युंजय सिंह, थाना करमा सोनभद्र।

5- कां० अमित कुमार, थाना करमा सोनभद्र।

6- कां० अमित कुमार सिंह, थाना करमा सोनभद्र।